



Intensive Repair
Foot Cream



NYSA

Intensive Repair

Foot Cream

Soft & Silky
FEET



Wheat-germ oil



Before



After



खूबसुरत एवं मुलायम पाँव

पाँव शरीर का ऐसा हिस्सा है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि वास्तव में पाँवों की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है।



कुछ लोग पाँवों की देखभाल को महत्व नहीं देते है जिससे उनके पाँवों की त्वचा खुरदरी, रूखी एवं एड़िया फट जाती है।



नायसा फुट क्रीम

- व्हीट जर्म ऑयल होता है जो दरारों को भरकर फटी एड़ियों को मुलायम, रेशमी व सुन्दर बनाता है।
- पाँव के दर्द को कम करके, रात भर में त्वचा को नमी प्रदान करता है जिससे पाँव फटते नहीं हैं।



व्हीट जर्म ऑयल



- व्हीट जर्म ऑयल गेहुँ के दाने से निकाला जाता है।
- व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन बी6 फोलिक एसिड और विटामिन बी कोम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पौटेशियम, फास्फोरस और कई सारे आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण होता है जो त्वचा के ऊतकों की मरम्मत कर उनकी वृद्धि करने में सहायक होता है।



- व्हीट जर्म ऑयल त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है साथ ही त्वचा के विभिन्न रोगों जैसे-सोरियस, एग्जिमा और सुखी त्वचा आदि से बचाता है। इसे पाँवों पर लगाने से यह पाँव की मरम्मत कर स्वस्थ सुन्दर बनाता है। इसमें विटामिन ई ऑयल होता है जो पाँवों की त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है।



प्रयोग करने का तरीका-



1
पैरों को गुनगुने
पानी से धोये



2
पैरों को सुखाये



3
अब, नायसा
फुट क्रीम को
प्रभावित जगह
पर लगाये



- फटी एड़ियों का उपचार हमेशा सोने से पहले रात में करे, ताकि आपके पाँवों को थोड़ा आराम मिले एवं क्रीम आसानी से फटी एड़ियों में अवशोषित हो जाये।
- अपने पाँवों को कोमल, मुलायम एवं स्वस्थ बनाने के लिए फटी एड़ियों का उपचार नाइसा फुट क्रीम से जरूर करे।



जय आरसीएम